Commercial Engineers & Body Builders Co. Limited



AN ISO/TS 16949:2009 Company CIN-L24231UP1979PLC004837

Regd. Office: 84/105-A, G.T. Road, Kanpur Mahanagar, Kanpur - 208003 (U.P.) INDIA Email Id – cs@cebbco.com Head Office: 48, Vandana Vihaar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) Website – www.cebbco.com

25.05.2019

To,

The Secretary, Bombay Stock Exchange Limited, 25th Floor, P J Towers,

Dalal Street,

MUMBAI - 400 001

Fax No.022 2272 2061/022 2272

2041

The Secretary

National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No C/1 G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra

(East)

Mumbai 400051

Fax No. 022-2659 8237/38,

66418124/25/26

Sub:- Publication of Financials for the quarter ended 31st March 2019.

Ref :- Scrip Code 533272 NSE :- CEBBCO

Dear Sir / Madam,

We hereby would like to inform you that, we have duly published the Unaudited / Audited Financials for the quarter / year ended $31^{\rm st}$ March 2019 in Rashtriya Sahara and Financial Express Newspaper (Kanpur, U.P.) on 24.05.2019.

Please find enclosed herewith a copy of the paper cutting of the same.

This for your intimation and record

For COMMERCIAL ENGINEERS AND BODY BUILDERS CO. LIMITED

Amit K Jain/ J Company Secretary

Factory (Unit I) : 21,22,33,34, Industrial Area Richhai, Jabalpur - 482010 M.P., Tel. +91-761-233 0817 / 872, Fax : 0761-2331488

Factory (Unit II) : NH12-A, Village Udaipura, Teh. Niwas, Distt. Mandla - 481661 M.P., Tel. +91-7643-227403, 227389
Factory (Unit III) : Plot No. 690 to 693 & 751 to 756, Sector III, Industrial Area, Pithampur, Distt. Dhar, Tel. - 07292-407981

Factory (Unit IV) : Industrial Area Richhai, Jabalpur - 482010 M.P.

Factory (Unit V) : Plot No. 742, Asangi Phase Area, Saraikela, Jharkhand - 932109 Tel. 0657-2200251 / 252

Factory (Unit VI) : Village Imlai, Near Deori Railway Station, P.O. Panagar, Jabalpur - 483220

कन्नौज में बवाल की आशंका पर पैरामिलेट्री फोर्स रवाना

महानगर

कालपुर

■ सहारा न्यूज ब्यूरो कानपुर।

कन्नौज में मतगणना के बाद बवाल की आशंका के वपाल का जाराका क मद्देनजर गुरुवार की शाम शहर से कई थानेदारों, दो प्लाटून पीएसी, पैरामिलेट्री फोर्स को रवाना कर दिया गया है। इसकी पुष्टि एडीजी और आईजी रेंज ने की है।

⊞3CO

कभी डिंपल यादव तो कभी सब्रत पाठक बढ़त लेते रहे। शाम

Particulars

Net Profit / (Loss) for the periodefore tax (after Exception and / or Extraordinary items#)

Net Profit / (Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or Extraordinary items#)

Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]

Reserves (excluding Revaluatio Reserve) as shown in the Audite Balance Sheet of the previous year

Earnings Per Share (of Rs. 10/ each) (for continuing and discontinued operations)

6 Equity Share Capital

1. Basic 2. Diluted:

1 Total Income from Operations 5146.62 6,303.67

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items#)

मतगणना के दौरान बवाल की आशंका पर डीजीपी हेड क्वार्टर से दो प्लाटन पीएसी और नगर से भेजी गई सिविल पलिस

देर रात तक चलती रही मतगणना के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च करता रहा फोर्स, कैमरे से रखी गई निगरानी

Commercial Engineers & Body Builders Co Ltd.

Regd. office: 84/105-A, G.T.Road, Kanpur Mahanagar,
Kanpur-208 003, Uttar Pradesh, India
CIN: L24231UP1979PL004837

ANNEXURE I

Extract of Audited / Unaudited Financial Results for the Quarter / Year Ended March 31st, 2019 [See Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

Quarter ended 31-03-19 31-12-18

10,552.50 (423.59)

(5.19) 1.33

8,948.27 5,494.30

The above audited financial results for the quarter and year ended 31 March 2019, were reviewed by the Audit Committee at their meeting held on 22 May 2019 and approved by the Board of Directors at their meeting held on 22 May 2019. The statutory auditors of the Company have carried audit of the above financial results for the quarter and year ended 31 March 2019 and an unmodified opinion has been issued. The same have been filed with BSE Ltd, and National Stock Exchange of India Ltd and is also available to the Company website at www.cebbco.com,

b) In accordance with the requirements 0f. In AS, revenue for the period from 1 April 2018 to March 2019 is net ofGoods and Service Tax (GST). However, revenue for the period from 1 April 2017 to 30 June 2017 is inclusive of excise duty and that for the period from 01 July 2017 to March 2018 is net of GST.

the period from 1 April 2017 to 30 June 2017 is inclusive of excise duty and that for the period from 01 July 2017 to March 2018 is net of GST.

The Company had been incurring cash losses affecting its ability to service its borrowings, creditors, other liabilities and similar obligations. The Strategic Debt Restructuring ("SDR") plan of the Company in compliance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") could not be completed within the time issued by the Reserve Bank of India ("RBI") could not be completed within the time classified as Non-Parforming Assets in the books (it. lenders, The lenders were in the process of identifying revival measures including debt restructuring and other structural changes. Pursuant to a Resolution Plan, the Company, the lenders, the erstwhile promoters and the incoming investor entered into an agreement on 1 December 2018. The Resolution Plan mainly includes partial waiver of the principal amount of loan and interest, issuance of 3.45.39,989 equity shares of Rs. 10 each to the Incoming Investor, transfer or pledged promoter shares to the incoming investor, transfer or pledged promoter shares to the incoming investor, transfer or pledged promoter shares to the incoming investor, transfer or pledged promoter shares to the incoming investor, transfer or pledged promoter shares to the incoming investor, transfer or pledged promoter shares to the incoming and the credit shareholders approval on 7.1 anuary 2019, Pursuant to this, again of Rs. 1,2457 45 Lakahs (including the waiver of interest recognised as finance cost till 31 December 2018) has been recorded under the head "Exceptional Items" and Rs. 3,983.1 1 has been recognised in "Other equity". The management believes that the above Resolution Plan together with continued customer support and ownership change will result in revival of operations ofthe Company Accordingly, the financial results have been prepared on going concombasis.

Ownership Change will result in revival or operations offite Company Accordingly, the financial results have been prepared on going concern basis.

d) During the quarter ended 31 March 2019, the Company has undertaken review of certain activities and assets held for the same. The Company has identified certain assets having Written Down Value (WDV) of Rs 1,700.83 Lakhs as at 31 March 2019 and included them under 'Assets held for sale' at their estimated net realisable value The loss of Rs 1,603.98 Lakhs being difference between WDV and estimated realizable value has been recorded under the head 'Exceptional Items'.

e) Pursuant to the Resolution Plan as mentioned in Note 3 above, the share capital ofthe Company has undergone a change which is explained below 'Authorized Share Capital' - Increased from Rs, 7,705.00 Lakhs to Rs 18,005.00 Lakhs, the details are as under -57,050,000 equity share capital offRs, 100 each amounting to Rs, 2,025.00 Lakhs, 19 have capital offRs, 100 each amounting to Rs, 2,025.00 Lakhs, 2,000,000 preference share capital Rs. 100 each amounting to Rs, 2,025.00 Lakhs Rs, 8,000.00 Lakhs Paid up capital - Increased from Rs, 2,045.00 Lakhs been increased to 8,800,000 preference share capital Rs. 100 each amounting to Rs, 3,043.01 Lakhs to Rs, 16,996.49 Lakhs, detailed as underricquity share capital has increased from Rs, 8,000.000 preference share capital Rs, 100 each amounting to Rs, 2,414 kms, Issued 67, 746.228 Not Convertible Cumulative Advanced from Rs, 65 each amounting to Rs, 2,000.000 kms, 100,000 k

f) The figures o'the last quarter are the balancing figures between the audited figure in respect of full year and the unaudited published figures up to the third quarte ended 31 December of respective year.

g) The Company's business activity falls within a single primary business segment viz.
Sheet metal fabrication and body building. The operating segment has been defined based on regular review by the Company's Chief Operating Decision Maker to assess the performance of. the Company and to make decision about allocation of resources.

of resources

Effective 1 April 2018, the Company adopted Ind AS 115 "Revenue From Contracts with Customers" using the cumulative effect method which is applied to contracts that were not completed as of 1 April 2018. Accordingly, the comparatives have not been retrospectively adjusted There is no material effect on adoption of Ind AS 115 on the audited financial results.

(423.59

ने शहर (कानपुर), लखनऊ डीजीपी हेडक्वार्टर, आधा दर्जन नगर के थानेदार, पैरामिलेट्री फोर्स व पीएसी को कन्नौज के लिए रवाना कर दिया है। आईजी रेंज आलोक सिंह ने बताया कि देर रात तक मतगणना चलती रही। कन्नौज में वर्तमान सांसद व गठबंधन प्रत्याशी डिंपल यादव और भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक में सीधी टक्कर रही।

गड़बड़ी फैलाने वालों से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में फोर्स को रवाना कर दिया गया है। जवान मतगणना स्थल व आसपास के संवेदुनशील इलाकों में पैदल मार्च कर संदिग्धों होते होते सबत पाठक ने दिपल से भारी मतों से बहत हासिल पर नजर रखे हुए हैं।

कर ला। इसक बाद भाजपा आर सपा-बसपा कार्यकर्ताओं में तकरार बढ़ गई। इसकी जानकारी एसपी कन्नौज ने एडीजी प्रेम प्रकाश और आईजी आलोक

सिंह को दी, जिसके बाद दोनों अफसरों

'मोदी ने हज कोटा खत्म करके आसान कर दी हज यात्रा'

पिछली सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी

ान्छणा सरकार न राखारांचा प्रधानाना बना अटारा बढ़ारा पाजपंचा ने सऊदी हुन पर जाने वाले जायरीन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये थे। इससे पूर्व अन्य किसी राजनीतिक पार्टियों ने मुसलमानों के हित में कुछ नहीं किया लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल

में सबसे बड़ा काम सऊदी से हज का कोटा खत्म करा दिया। इस

न संचंद बड़ा काम संक्रा से हुंच का काट ब्रेस में कर दिया है साल पाकिस्तान से भी ज्यादा लोग वहीं से इब याता पर जा सकेंगे। इज यात्रा में जाने वाले जायरीन के ग्रीन कैटेगरी में 2 लाख 90 हजार और अजीजिया कैटगरी में 1 लाख 53 हजार रुपये हवाई यात्रा में

खर्च होते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि अगले साल से हज

यात्रा पर जाने वाले जायरीन के लिए हवाई यात्रा में कटौती करायी

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

े लोकसभा चुनाव में पहले से अधिक सीटें पाने वाली भाजपा व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मुस्लिमों ने जीत की बधाई दी है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने हज कोटा खत्म कराकर हज त्रा प्रवासना में हुण पाट खर्म वरावर हुण यात्रा की मुश्किलें आसान कर दी हैं। पिछले पांच साल में 'सबका साथ-सबका विकास' का नारा देने वाले प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि आगे भी

मुसलमानों को उनका सहयोग मिलेगा। लोगों ने बंद टेनरियां शुरू कराने और स्लाटर हाउस से जुड़े लोगों का उद्धार करने की भी

का। स्माल टेनर्स के डॉ. फिरोज आलम ने बताया कि कुंभ मेले के स्माल टरास के डा. 1940 आलाभ न बावाबा क कुम भारा क दौरान पांच महीने के लिए जाजमक की टेनरियां बंद होने से लाखों मजदूर बेरोजमार हो गए हैं और सुखमरी की कमार पर खड़े हो गए हैं। जाजमक में चमड़ा का व्यापार 117 साल पुराना है। जाजमक की टेनरियों से लगुभमा 15 हजार करोड़ विदेशी मुद्रा भी प्रदेश सरकार को प्राप्त होती है। सरकार को इस विषय पर गंभीरता से निर्णय लेकर बंद टेनरियों का संचालन शुरू करा देना चाहिए। तंजीम हज कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी नईमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि भाजपा की









मुस्लिमों ने भाजपा की प्रचंड जीत पर मोदी को दी <u>मुबा</u>रकबाद

टेनरियों के संचालन व स्लाटर हाउस कर्मियों के उद्धार की मांग

-----नजमी ने भी बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा है कि पिछले पांच साल के दौरान हुकूमत ने मुसलमानों के प्रति जो कुछ भी निर्णय लिया, मुसलमानों के प्रति जो कुछ भी निर्णय लिया, मुसलमानों ने किसी तरह का विरोध नहीं किया। चाहे टेनरी बंदी का

भागा न विस्ता परंद का विरोध नहीं विभाग चाह उपरा बदा क मला हो, चाहे स्लाटर हाउस की बंदी का।सुन्नी उलेमा काउँसिल महासचिव हाजी सलीस ने कहा कि देश की जनता पार्टी को वोट देती है। देश की जनता को भयमक्त शासन चाहिए, वह भाजप रता है। एस जा नजा। जम नजुन्न र शासन वाहर, वह नाजना सरकार के फिछले पांच साल में दिखा है। प्रधानमंत्री मोदी से मांग की कि सबका साथ-सबका विकास नारा में और बेहतर काम होना चाहिए। धर्म के नाम पर होनी वाली राजनीति पर आने वाले दिनों में विराम लग सकता है। कुरैशी विरादरी से जुड़े हाजी दिलशाद ने भी प्रधानमंत्री को वधाई देते हुए मांग की कि कुरैशी विरादिरयों का पुश्तैनी काम गोशत के व्यापार से जुड़ा है। पुराने स्लाटर हाउसों का पुश्तैनी काम गोश्त के व्यापार से जुड़ा है। सुंदरीकरण कराकर संचालित किया जाए

'मोदी है तो मुमिकन है राहुल है तो मुश्किल हैं'

■ आदित्य पांडे 'रवि'

कानपुर। एसएनबी

(₹In lacs)

Previous Year ende 31-03-18 Audited

-3691.27 8.867.38

ended 31-03-19 Audited

(8.867.38) -3691.27

8.867.38

(1.20)

637.27

21,655.87 10080.39

Qtr. ended 31-03-18 Audited

3,786.66

(1,191.26)

(1,191,26)

(1,191.26)

5.26

12.96 (0.77) (2.16) 14.42 -6.71 12.96 (0.77) (2.16) 14.42 -6.71

लोकसभा चुनाव की मतगणना में देशभर के रुझान शुरू होते ही सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वालों के कमेंट व कोट्स भी शुरू हो गए। फेसबुक, ट्विटर में चुटीले व व्यंग्यात्मक स्लोगन की भरमार हो गई। ज्यादातर भाजपा के पश्च में थे तो कांग्रेस पार्टी पर कटाश करते हुए स्लोगन। मीड़िया के लोगों को भी नहीं छोड़ा जा रहा था। बड़े चैनलों के बड़े रिपोर्टरों की भी खिंचाई की गई। कांग्रेस व रिनाटप का ना खिपाइ को गई। कांग्रस प महागठबंधन पर तंज करते हुए स्लोगनों की संख्या ज्यादा रही। आइये आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरह से लोगों ने अपने विचार

■ डियर विपक्ष-पीएम मोदी को छोडो. चिंता इस डियर विपक्त-पाएम माद्य का छाङ्गा, विसा इस बात कि करों कि अमित शाह कहां हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ में।
 हुआ सो हुआ-प्रधानमंत्री मोदी ही हुआ। मांगना महंगा पड़ा।

नागग महगा पड़ा।

॥ भोपाल से दिग्वजय सिंह आगे चल रहे हैं 1015 लोग पीछेमीछे चल रहे हैं। मानार से चित्रपंजिय सिंह जान पर रहे हैं।
 ■ बीजेपी की टैंग लाइन-मोदी है तो मुमिकन है,

कांग्रेस की टैंग लाइन-राहुल है तो मुश्किल है। ■ चुनाव आयोग ने विपक्षियों से कहा, अभी जीत घोषित कर दें या दिनभर बेइज्जती कराओंगे। ■ मोदी जी को जीत का आशीर्वाद सबसे पहले मुलायम सिंह ने दिया था, इसलिए नेताजी का हृदय से आभार।

 मेडिकल स्टोर से बीपी मापने वाले यंत्र गायब. च माडकल स्टार स बापा मापन पाटा यत्र पा लगी है कांग्रेसियों की भीड़, ग्लूकोज के डिब्बों कीमतों में ₹30 की तेजी।

■ वाह मोदी जी आपने न 15 लाख दिये. न 72 हजार लेने दिये। अब 15 लाख मिलने तक जाने

नहीं देंगे। ■ बीजेपी की टैग लाइन-मोदी है तो मुमकिन है, कांग्रेस की टैग लाइन-राहुल है तो मुश्किल है। गंदी जी इस देश को अरुण जेटली से बचाए

 आज का दिन है बहुत अहम, बहुतों का टूटेगा वहम, कहीं ख़ूशी कहीं गम।

नगर व अकबरपुर में 11,967 लोगों ने नोटा में डाला वोट

कानपुर (एसएनबी)। लोकसभा चुनाव में इस बार शहर के पचास फीसद मतदाताओं ने ही वोट डाले हैं। ऐसे मतदाताओं की संख्या भी काफी अधिक नहीं रही, जिन्हें कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं आया। हालांकि जिन्हें प्रत्याशी पसंद नहीं आया उन्होंने वोट डालने के लिए

यस से निकलना ही बेहतर नहीं समझा। लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए शासन-प्रशासन ने भरसक प्रयास किया था। यहां तक कि प्रचार-प्रसार में मतदाताओं से यह भी ने किसी को नहीं दिया वोट

अपील की गयी थी कि वह मतदान के लिए अवश्य निकलें. चाहें नोटा में मतदान के लिए अवश्य ानकल, चाह नाटा म ही बटन दवायें। इसके बावजूद मतदाताओं में चुनाव के प्रति उदासीनता रही। इसके चलते . हरीब पचास फीसद के आसपास ही मतदान हो सका था। 29 अप्रैल को हुए मतदान में

नगर सीसामरू केंट किदव नगर सीट पर 3973 मतदाताओं और अकबरपुर में 7994 मतदाताओं

प्रयोग कर एक भी प्रत्याशी के पसंद नहीं किया। वहीं, करीब

साढ़े 48 फीसद मतदाता ने अपनी नापंसद के चलते घर से निकलकर वोट डालना ही उचित नहीं समझा। इसके

अधत नहा समझा। इसक उलट अकबरपुर लोक सभा क्षेत्र में शहर की अपेक्षा अधिक मतदाताओं ने प्रत्याशियां को नकारा। इसके चलते सभी पांच विधान सभाओं के 7994 मतदाताओं ने सभी प्रत्याशियों को नकार कर नोटा का बटन टबाकर अपना विरोध टर्ज कराया है।

-3691.27 ्यक्त किये। ■ यह चुनाव लोकसभा के लिए थे या किसी शोकसभा के लिए। ■ जाति को बहाकर बचा लिया देश, जय भारतजय भारत। ■ क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रि 5.32 5,494.30 8,948.27 5,494.30 (12.212.02)

चलती बाइक में महिला के बाले लूटे, गाडी से गिरकर मौत

. शरीक होने राजेन्द्र पत्नी अनीता और बेटे आश के साथ गये थे। रात करीब 11 बजे क्षपक होता राजद 'एना) अपनी कार वह आशू के साथ गय था 1 रात करता 1 व व अभीता बेटे आशू के साथ बाइक से, जबते प्रोजेन्द दूरायी बाइक से पक्ष किए तुन हो थे आशू आगे घल रहा था, जबकि राजेन्द्र पीछे थे। वह लोग जब दादानगर पुल के ऊपर पहुँचे, तुनों पीछे से आये बाइक सखार दो बरमाशों ने जयानक इपहा मारकर अतीता के कम से दोनों बाल दिल्ली था उपाक्र करने से अतीता अत्मा स्तुलन तर्सी वमा सकी और सिर के बल्लू चलती बाइक से नीचे आगिरी। पीछे चल रहे राजेन्द्र ने बदमाओं का

परिजनो की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज व	कर लुटेरो कं	तलाश की उ	जायेगी।	
 पूर्वोचर रेलवे शिवा । अविशिवत वार्व के शिवे ई-शिववार्व भारत के र 				
पूर्वोत्तर रेलवे, इउजतनगर द्वारा आमंत्रित की जाती है	1			
कार्य का विकरण पीलीभीत रेलवे स्टेशन के ब्राइनेज परिवर्तित क्षेत्र				
की शरतई, जिसमें सर्वित बिल्हींग क्षेत्र, सभी	5463678/-	109300/-	5000/-	
टायलेट, बाधरूम, चाटर बूध, इस्ट विन, नालियाँ टूँक, गार्वेज डिल्पोजल, यूत जानवर को स्टाना	ई-निविदायें जमा करने की आखिरी तिथि। वर्व समार : विस्तांस 17.06.2019 मी 15.00			

टेन की छत था पायबान पर बैठकर थात्रा न करें

दिनांक: 16.05.20

श्री अयोध्या प्रसाद भृत्य पुत्र श्री मिश्री लाल जाति-धोबी (अनुसचित जाति: ग्राम-नारायण खेड़ा, पोस्ट-उतरावां, जिला-लखनऊ आप[°] बिना किसी सचना के दिनांक : 29.06.2001 से निरन्तर अनुपस्थित चल रहे हैं आपको क्रमशः पत्र सं.-446-47/ 2002-03 दि. 01.08.2002, 482 83/ 2002-03 दि. 23.08.2002, 536-37/ 2002-03 दि 18.09.2002、626-27/2002-03 年、18.10.2002、795-96 বি. 28.12.2002, 343-44/ 2003-04 বি 20.06.2003, 606/ 2010-11 दि. 23.08.2010, 1087/ 2010-11 বি. 21.12.2010, 1010/ 2017-18 বি. 29.08.2017, 118/2018 19 दि. 16.04.2018 एवं 2179/ 2018-19 दिनांक 04.12.2018 फ्रों द्वारा लगातार कार्य पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। परन्तु समयान्तर्गत न तो आप कार्य पर स्वयं उपस्थित हुये और न ही आप 🛚 द्वार कोई पत्राचार ही किया गया। समाचार पत्रों में प्रकाशित इस सचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के भीतर आप अपनी योगदान आख्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अवश्य प्रस्तुत करें अन्यथा की दशा में आपकी सेवायें समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित गपका होगा।

(डा. सधीर रंजन) क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, फतेहपुर

कानपुर (एसएनबी)। गोविंदनार के दादानगर पुल पर बदमाशों द्वारा वाइक से जा रही महिला के बाले लुट्टेन से महिला अनिवर्धित क्षेत्रर शिर पढ़ी और उसकी भीत हो गयी। वहीं, लुटेरे बाले लुट्टकर मामाने में सफलर हैं। करन्यापपुर केत राजनुर भाव निवर्धा पेजेन दांशित पुराहित का काम करते हैं। मुरुवार को राजेट को अर्स में रहते वाली साली चंडकली की बेटी की शादी थी, जिसमें

जार त्वर के बेटी बेटिया बाइक संभाव जा गरा भाव वेटा रहे राजिय में बेट्सी पुलिस जनीता को लेकर हैलट पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि

ूक्त, गानज विशेचार, जून जानवार को दर्जना है, निर्मिद्धारी जाम स्वरंभ के अधिक से के स्वावत है के स्वावत है के स्वावत है के स्वावत है, के स्वावत है के स्वावत है, के स्वावत है के स्ववत है स्वावत है स्वावत है के स्वावत है के स्वावत है के स्वावत है के स्वावत है के

कार्यालय क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, फतेहपुर -: नोटिस/ विज्ञप्ति:-

आग लगने से सिलेंडर फटा, तीन गंभीर

कानपुर (एसएनबॉ)। काकादेव थाना क्षेत्र अंतर्गत ने गैस चूल्दे में आग लगायी तो गैस पाइप लीकेज होने से आसीनगर में एक मकान के अंदर सिलंडर फट जाने से आग सिलंडर में लग गयी। मनमीत के और मचाने पर पर में मीचूद चावा, भातींजो और पढ़ोनी भंभीर रूप से हरजीद किक में पहुँचे। कुएस गये। घमके को आवाज मुक्तर पहुँचे पड़ीसियों ने भतींजों को आग में पिरा देख वह उसे बचाने लगे। पानी डालकर आग पर काबू पाया और तीनों को हैल्टर में 'और सुनकर पहुँचे पड़ीसियों ने भतींजों को लग्द पहुँचे पड़ीसियों ने भतींजों को आग में हिस वेदाले खांति प्रकाश मिश्रा आ मार्गी करवाया। एक को हालत ज्यादा गंभीर बतायी जा गये। शांति प्रकाश जैसे हो कमरे में पुसे, तभो तेत

शास्त्रीनगर निवासी हरजीत सिंह (55) प्राइवेट काम करता है। उसकी शास्त्रीनगर कॉलोनी में रहने वाली बहर करता है। उसका शास्त्रानगर कालाना में रहन वाला बहन कुछ दिन पूर्व परिवार के साथ बाहर गयी है। घर की जिम्मेदारी हरजीत को दे गयी थी। वह रात में बहन के घर ही सोता था। गुरुवार को हरजीत भतीजी मनमीत कौर को खाना बनाने के लिए बहन के घर लेकर आया था। मनमीत

भताजा का आग म थिरा दख वह उस बचान लगा शोर सुनकर पड़ोस में रहने वाले शांति प्रकाश मिश्रा आ गये। शांति प्रकाश जैसे ही कमरे में घुसे, तभी तेज आवाज के साथ सिलेंडर फट गया और आग की चपेट में तीनों लोग आ गये। धमाके की आवाज सनकर पड़ोसी पहुंचे और किसी प्रकार आग पर काबू पाया। तीनों को हैलट में भर्ती कराया गया है, जहां हरजीत की हालत गंभीर बतायी जा रही है। पुलिस ने सिलेंडर फटने की बात से इनकार करते हुए लीकेज गैस पाइप से आग लगने की बात कही है।

भूमाफिया ने सेना की जमीन कब्जाई, रिपोर्ट दर्ज

कानपुर। चनेकरी थाना क्षेत्र में सिक्रिय प्रमाफिया इतने बखीफ हैं कि उन्होंने अब सेना की जमीन पर भी कन्ना करना शुरू कर दिवा है। इसी कही में एक भूमाफिया ने सेना की उस जमीन पर कन्ना कर रिवारा जाई उनके टैंक खड़े होते हैं। सेना ने हटाने का प्रयास किया तो वह अपने साथियों के साथ सेना से पिड़ गया और उन्हें साधियां के साथ सना सा भाइ गया और उन्हें पाकिस्ताने सीना तक कह डाला। भूमाफिया सुवित भाटिया वहां टैंकों व सेना की अन्य युद्ध सामग्री की वींडियोग्राफी भी करता था। इस पर कर्नल युके वैश्य ने सुवित के खिलाफ क्यां के सामे में रिपोर्ट दर्ज करायां है। पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन की जा रही है। सर्वर डाउन रहने से इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित कानपुर। हैलट के इमरजेंसी क्लॉक का सर्वर फेल होने से मरीजों की फाइलें रुकने पर कतारबद्ध तीमारदारों ने हंगामा किया। इस दौरान लगभग दो घंटे तक इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हुईं, जिससे दो गंभीर मरीजों को अन्यत्र इलाज के लिए तीमारदार ले गये। हैलट में आठ माह

नराजा का अन्यत्र इंटाराज का रिएर (मानारक्ष रि) गया इंटार न आठ माड से मरीजों के पर्चे आदि बनाने का काम कंप्यूट्सइंड्ड कर सर्वर के माध्यम से किया जाने लगा है। इस दौरान दर्जनों वार सर्वर फेल होने से पर्चा समेत अन्य काम भी वाधित होते रहे हैं। गुरुवार सुबह ग्यारह बजे अचानक सर्वर ने काम करना बंद कर दिया। उधर, सर्वर फेल हुआ तो मरीजों के पर्चे भी नहीं बने, जिससे इलाज में विलंब होने लगा तो निराजा के पर मा नहां बन, जिससे इंटाजिन ने जिससे हमें रोजी तीमारदारों ने हेमामा किया। अधिकारियों ने ऑनलाइन की जगह हाथ से पर्चे बनाने की व्यवस्था की। लगभग दो घंटे तक इलाज बाधित रहा। उधर हंगामा शांत होने के आधा घंटे बाद इमरजेंसी में घंटों से इंतजार कर रहे मरीजों का इलाज शुरू किया गया। प्रमुख अधीक्षक डॉ. आरवे मौर्या ने बताया कि सर्वर फेल होने की समस्या अक्सर होती है १ न्याना नर चनर नया श्रम का समस्या अक फिलहाल इमरजेंसी सेवाओं को शुरू करा दिया गया है।

लूट की सूचना देकर कारोबारी ने पुलिस को छकाया

कानपुर (एसएनबी)। नशे के दौरान दोस्तों से झगड़ा हो जाने से क्षुब्ध एक कारोबारी ने पुलिस को लूट की सूचना दे दी। उसने पुलिस को बताया कि उसकी ऑडी कार और दो लाख रुपये उसके दोस्तों ने लूट न्याचा भा उसका आंध्र भार आर पा एक स्पर्य कर साथा न शुट लिये हैं। मुरुवार तड़के इस सूचना से पुलिस के होश उड़ गये। आर फानन कल्याणपुर, काकादेव, नवावगंज और कोहना का फोर्स मौके पर पहुंचा। पुलिस ने कारोबारी की कार वरामद कर ली, जिसके बाद सख्ती

करने पर उसने फर्जी सूचना देने की बात कही। लखनपुर निवासी शिवम मिश्रा कारोबारी है। बुधवार को वह अपने लाकपुर निवासी शिवस मिश्रा करोबारी है। बुगबार को वह उन्हों सोले के साथ को नह उन्हों में साथ की दूर करने में प्रशान की स्वात ने में साथ की दूर करने में प्रशान की साथ की हमाने में साथ की दूर करने में प्रशान हों में साथ की दूर करने में प्रशान हों में साथ की हमाने की साथ की साथ किए में हमाने हमें में साथ की साथ क ाजसक अंदर से बास हजार रूपये भा मात गया इस पर पुलस न जब सख्डी से पूछा विधान मे दोसती संक्षा हुसे पर फर्चों मुनवा देने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने उसे हिदायत देकर छोड़ दिया। कल्याणपर पुलिस का कहना है कि दोसतों से झगड़ा होने पर युचक ने पुलिस की सुचना दें थीं, उसकी कार और रुपये वरामद हो गये, उसे हिदायत देकर छोड़ दिया गया।

बिजनौर से लाये गये एक शावक की मौत

कानपुर। विजनौर से 15 मई को चिड़ियाघर लाये गये तेन्दुए के चार शावकों में से एक शावक की मौत हो गयी। पोस्टमॉर्टम में डॉक्टरों ने उसकी मौत का कारण किड़नी में संक्रमण गया है। उस्रकी किटनी को जांच के था है। उसका किडना का जांच क ! भारतीय वन्य जीव अनुसंधान केन्द्र नी भेजा जायेगा। इन शावकों को उनकी मां गन्ने के

खेत में छोड़कर चली गयी थी। खेत काटने के दौरान ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ा काटन के दारोन ग्रामाणा ने उन्हें पकड़ा था। इन दुधमुंहे शावकों को डॉक्टरों की देखरेख में वातानुकूलित कमरे में रखा गया। बच्चों को पीने के लिए दूध दिया जा रहा था। कुछ कमजोर शावकों को अस्पताल के कर्मचारी द्वारा बोतल से दूध पिलाया जा रहा है लेकिन एक नर दूव विस्तावा जा रहा है साकन एक नर शावक की हालत कल खराब हो गयी थी। आज सुबह उसकी मौत हो गयी। डॉक्टर यूसी श्रीवास्तव और डॉ. आरके सिंह ने उसके शव का पोस्टमॉर्टम किया, जिसमें उसकी किडनी में संक्रमण मिला। अब उसकी किडनी को जांच के लिए भारतीय वन्य जीव अनुसंधान केन्द्र बरेली भेजा जायेगा।

Pune 22-05-19 ---

For and on Behalf of the Board Abhishek Jaiswal DIN- 07936627

Previous period/year figures have been regrouped / reclassified wherevenecessary to correspond with current period/year classification / disclosures

IDBI Bank Ltd.

Previous

Year ended

Year

ended



CAPLIN POINT LABORATORIES LIMITED Regd. Office: "Narbavi" No. 3, Lakshmanan Street, T Nagar, Chennai-600 017 CIN: L24231TN1990PLC019053

PH: 044 28156653,28156905, Fax: 044 -28154952 e-mail: info@caplinpoint.net, website: www.caplinpoint.net

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE THREE MONTHS AND YEAR ENDED 31st MARCH 2019 PREPARED IN COMPLIANCE WITH INDIAN ACCOUNTING STANDARDS. (Rs.in Lacs)

	Consolidated					
S.NO	Particulars	Quarter Ended		Year Ended		
		March 31,2019	December 31, 2018	March 31,2018	March 31,2019	March 31,2018
1	Total Revenue from Operations	Audited 18,733.97	Unaudited 15,902.83	Audited 14,341.08	Audited 64,869.09	Audited 53,984.20
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	6,069.23	5,980.93	4,542.82	22,687.62	18,837.83
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6,069.23	5,980.93	4,542.82	22,687.62	18,837.83
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4,985.61	4,580.75	3,529.33	17,655.54	14,463.50
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4,552.87	4,652.59	3,593.56	17,629.97	14,650.44
6	Equity Share Capital	1,512.61	1,512.07	1,512.07	1,512.61	1,512.07
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	34871.08
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) (Not Annualised) (i) Basic	6.58	6.06	4.76	23.35	19.16
	(ii) Diluted	6.55	6.03	4.74	23.23	19.06

			Quarter Ended		Year Ended		
CNC		D. C. I	31.03. 2019	31.12.2018	31.03. 2018	31.03.2019	31.03.2018
S.1	NO	Particulars	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
L			Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1		Total Revenue from Operations	14,074.32	13,976.17	11,044.13	53,690.57	42,657.39
2		Profit Before Tax	5,533.09	5,086.06	3,171.18	20,265.38	14,605.30
3		Profit After Tax	4,032.46	3,685.88	2,157.81	14,816.65	10,231.09

2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Bombay Stock Exchange website (URL:www.bseindia.com/corporates), the national stock exchange (URL:www.nseindia.com/corporates) and on the company's website (URL:www.caplinpoint.net).

3. The audited financial results have been reviewed by the Audit Committee of the Board and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on May 22, 2019

Place:Chennai **Date: May 22,2019** For Caplin Point Laboratories Limited Dr Sridhar Ganesan **Managing Director**

ITI Limited, **RO-Lucknow**

Vendors for Supply, Installation, Testing and Commissioning of 'Sammelan Dhvani Pranal (Ankiya-Krit)' for some Government Organization in

Request for proposal (RFP) invited for Selection of

Due on 06/06/2019 at 13.30 Hrs For details & amendments Corrigendum, Please our site www.itiltd-india.com http://eprocure.gov.in & www.tenderwizard.com Additional General Manage

Chief Manager (Services & HR)







PUBLIC NOTICE Name of the Company N.B.I Industria Finance Co. Ltd. Address: 21, Strand Road (Ground Floor), Kolkata-70000 Notice is hereby given that the Share Certificate No 3571, With Distinctiv no(s) 269813 to 270812, in recpect o Folio No R00634 Registered in the name of **Mr. Rikhi Ram S/o Sh** Rameshwar Das is/are reported to be lost and the company has recived application for issue of duplicate share certificate(s). if no objection from any interested person is received by the company's Registrars **Maheshwa**i Datamatics Pvt. Ltd., 23, R.N Mukherjee Road, Kolkata 700001 within 15 days from the publication here of the company will proceed to issue duplicate share Certificate(s) to the applicant(s)

E-AUCTION

SALE NOTICE

Date &

at 11.00 a.m.

12.00 p.m.

12.06.2019.

at 11.00 a.m.

Dated:- 23/05/2019.

पंजाब नेशनल बेंक 🖳 punjab national bank ...the name you can BANK upon! ...भरोसे का प्रतीक !

BRANCH: JALANDHAR ROAD, KAPURTHALA, PHONE NO. 01822-505078, E mail ID:- bo0258@pnb.co.in

Amount

E-AUCTION SALE NOTICE TO GENERAL PUBLIC UNDER RULE 8 & 9 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002 LAST DATE & TIME OF SUBMISSION OF EMD AND DOCUMENTS (HARD COPY) 10.06.2019, 4.00 P.M. LAST DATE & TIME OF SUBMISSION OF EMD AND DOCUMENTS (ON LINE) THROUGH NEFT/RTGS 10.06.2019, 4:00 P.M.

E-auction sale notice for sale of assets under Securitisation and Reconstrucion of Financial Asset and Enformcent of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of Security Interest (Enforcement) Whereas under section 13(2) of the 'Securitisation & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act 2002, the Authorized Officer has issued demand notice as mentioned against each account for the

recovery of sum as mentioned against each account from the borrowers/guarantors/mortgagors (herein referred to as borrowers). Further, In exercise of powers contained in the 'Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, the Authorized Officer has taken the possession of the under mentioned secured assets which are held as securities in respect of Loan/credit facilities granted to various Borrowers Whereas sale of the secured asset/s is to be made through Public E-auction for recovery of the secured debt due to Punjab National Bank plus interest, costs and charges incurred by the bank thereon. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower, mortgagor and guarantor that the below described assets/ properties mortgaged/charged to the secured creditor, the symbolic possession of which has been taken by the authorized officer, Punjab National Bank, secured creditor will be sold on "AS IS WHERE IS BASIS", "AS IS WHAT IS BASIS"AND "WHATEVER THERE IS BASIS" on 12.06.2019 for recovery of amount as mentioned below due to Punjab National Bank, secured creditor, on the below name borrower, mortgagor and guarantor. The General Public is invited to bid either personally or by duly authorised agent. * It is open to the Bank to appoint a representative and to make self-bid and participate in the auction

Date of

Name of Branch & Account/ Borrower JALANDHAR ROAD KAPURTHALA

M/s SARV HITKARI **EDUCATIONAL** SOCIETY, New Delhi (Regd.) President Rakesh Chand Bajaj & Guarantors: Rakesh Chand Bajaj, Smt. Savita

 Property situated at Kapurthala Sharki and Village Bhawanipur, Goindwal Road, Kapurthala with building constructed thereon as per details given below: (A) Equitable Mortgage of Land & Building

Description of properties

on Land with area of 17K 6M details as under comprised in khata no.100/153 to 155 khasra no.22//4/2/1-12,6/2/6-7,7/1/1khata 182/281 khasra no.11//21/1/2-2.14//1/8-0.10/8-0.11/2/2-0.15//6/1/4-0.19//25/34/0-2 total 24-4 in which 1/4 share comes to 6-1 vide Sale deed No. 4199 dated 06.03.2000. So the Land measuring 17K 6M situated at village Bhawanipur

Recoverable along with name of mortgagors Symbolic Authorised IFSC code Time of Earnest Money Deposit (Owner of the property) Officer & A/c name E-Auction Possession Bid increase amount **Demand Notice** 1. (RP): Rs. 1 (A to F): Mr. Hemant Kumar Jha Account No. 12.06.2019, 6,00,68,003.91 19.07.2018 0258002100041412 Rs. 976.27 Lac (Authorised Officer). and interest (IFSC Code: Mobile No. 8826592244, 1. (EMD): 11.00 a.m. thereon AND PUNB0025800) Tel. No. 01822-501670 13(2) Notice Rs. 97.63 Lac Name of the Account: E mail:-12.00 p.m. Date: 2 & 3: SARFEASI EMD 1. (Bid increase 07.05.2018 bo0258@pnb.co.in 21.07.2018 Collection Account. amount): Rs. 50,000/-12.15//24/2/2/1-3.23//7/6-14.8/8-0.9/8-0.10/8-0.14/3/3-0.22//14 /2/0-12 total 45-0 in which 1/4 share comes to 11K-5M and 12.06.2019, 2. (RP) Rs. 60.30 Lac

Name of the

distt Kapurthala as per Jamabandi for the year 2012-13 in the name of/ownership Sarv Hitkari Educational Society New Delhi (B) Equitable Mortgage of Land & Building on Land with area of 16K 0M details as under comprised in khata no.182/281 khasra no 11//21/1/2-2,14//1/8-0,10/8-0,11/2/2-0,15//6/1/4-0,19//26/34/0-2 total 24-4 in which 1/4 share 6K 1M and khata no.100/153 To 155 khasra No.22//4/2/1-12,6/2/6-7,7/1/1-12,15//24/2/2/1-3,22//14/2/0-12,23//7/6-14, 8/8-0,9/8-0,10/8-0,14/3/3-0 total 45-0 in which 170/900 share comes to 8K 10M and khata no-101/156 to 160 khasra no.14//12/1/2/0-6,15//24/2/0-14,16/2/2-4,25/8-0,22//5/8-0,14//20/8-0 and 21/8-0, 23//1/8-0, 2/8-0,3/8-0, 14//19/2/0-1, 24/2/5-15 total 65-0 in which 29/1300 share comes to 1 K 9M vide Sale deed No. 4200 dated 06.03,2000. So the Land measuring 16K 0M situated at village Bhawanipur Distt. Kapurthala as per Jamabandi for the year 2012-13 in the name of/ownership Sarv Hitkari Educational Society New Delhi

3. (EMD) Rs. 6.03 Lac 3. (BIA) Rs. 10,000/-12.00 p.m. (C) Equitable Mortgage of Land & Building on Land with area of 16K 0M details as under comprised in khata no.110/163,164 khasra no.14//12/1/2/0-6,15//24/2/0-14,16/2/2-4,25/8-0 22//5/8-0,14//20/8-0,21/8-0,23//1/8-0,2/8-0,3/8-0,14//19/2/0-1,24/2/5-15 Total 65-0 in which 12K-0M and 4K-0M. vide Sale deed No. 4325 dated 15.03.2000. So the Land measuring 16k

2. (EMD) Rs. 6.03 Lac

2. (BIA) Rs. 10,000/-

3. (RP) Rs. 60.30 Lac

Reserve Price

Account No.

0M situated at village Bhawanipur Distt. Kapurthala as per Jamabandi for the year 2012-13 in the name of/ownership Sarv Hitkari Educational Society New Delhi (D) Equitable Mortgage of Land & Building on Land with area of 19K 17M details as under comprised in Khata 214/308 khasra no.11//21/1/2-2,14//1/8-0,10/8-0,11/1/2-0,15//6/1/4 0.14/3/3-0 total 45-0 in which 170/900 share comes to 8K-10M and khata 110/163 to 165 khasra no.14//12/1/2/0-6,20/8-0,21/8-0,15//24/2/0-14,16/2/2-4,25/8-0,22//5/8-0,23//3/8-0,23//1/8-0,16/2/2-4,25/8-0,21/5/8-0,23//3/8-0,23//1/8-0,16/2/2-4,25/8-0,21/5/8-0,21/5/8-0,23//3/8-0,23 0,2/8-0,14//19/2/0-1,24/2/5-15 total 65-0 in which 212/2600 share comes to 5K-6M vide Sale deed No. 940 dated 12.06.2001. So the Land measuring Bhawanipur Distt. Kapurthala as per Jamabandi for the year 2012-13 in the name of/ownership Sarv Hitkari Educational Society New Delhi.

(E) Equitable Mortgage of Land & Building on Land with area of 41K 8M details as under comprised in khata no.214/308 khasra no.11//21/1/2-2,14//1/8-0,10/8-0,11/1/2-0,15//6/1/4 0,19//25/34/0-2 total 24K-4M in which 1/4 share 6K-1M and khata 112/168,169 khasra no.15//15/2/3-3,15//16/1/2/0-17 total 4-0 in which 63/320 share comes to 0K-16M and khata 374/542 no. khasra 11//22/2/0-8.14//2/1/2-8.9/2/1-16.12/1/1/0-2 Total 4K-14M in which1/4 share comes to 1K-3 ½ M and khata 107/160 khasra no 22//4/2/1-12.6/2/6-7.7/1/1-12.15//24/2/2/1 3,22//14/2/0-12,23//7/6-14,8/8-0, 9/8-0,10/8-0,14/3/3-0 total 45-0 in which 1/4 share 11K-5M and khata 110/163 to 165 khasra.no.14//12/1/2/0-6,20/8-0,21/8-0,15//24/2/0-14,16/2/2-4,25/8 0,22//5/8-0,23//3/8-0,23//1/8-0,2/8-0,14//19/2/0-1,24/2/5-15 total 65-0 in which 240/1300 share comes to 12-0 and 25/2600 share comes to 12 ½M and 190/1300 share comes to 9K-10M Total land 41K-8M, vide Sale deed No. 1024 dated 19.06,2001, So the Land measuring 41K-8M situated at village Bhawanipur Distt, Kapurthala as per Jamabandi for the year 2012-13 in the name of/ownership Sarv Hitkari Educational Society New Delhi

share comes to 3K-21/2 M and khata 120/180 khsara no.15//24/2/21-3,22//4/2/1-12,6/2/6-7,7/1/1-12,14/2/0-12,23//7/6-14,8/8-0, 9/8-0,10/8-0,14/3 /3-0 total 45K in which 110/900 share comes to 5K-10M and khata 121/181 khasra no.22/14/1/1/1-0 in which 1/4 share 0-5M and khata 125/188,189 khasra no.15//15/2/3-3,15//16/1/1/2/0-17 total 4K-0M in which 17/160 sharecomes to 8½ M and khata no.31/61 khasra no.15//17/2/1-10 in which ½ share 0-15M and khata 492/721 Khasra No. 22/6/1/1-13,15/7-12,16/5-14 total 14-19 in which ¼ share comes to 3K-15M and khata 210/306 khsara no.15//30/0-12 in which 11/64 share 0-2M and khata 504/736 khasra no.22//26/0-11 in which 39/80 share comes to 5 ½ M Total 14K-3M, vide Sale deed No. 3292 dated 16.11.2004. So the Land measuring 14K-3M situated at village Bhawanipur Distt. Kapurthala as per Jamabandi for the year 2012-13 in the name of/ownership Sarv Hitkari Educational Society New Delhi

(2) Property measuring 65 Sq. Mtrs (700sq. ft.) situated at Dilshad Garden, Delhi 110095, as DDA built-up Freehold MIG Flat bearing No.93C, Second Floor, in pocket-A&B. Group IV in the name of Smt. Savita Bajaj vide conveyance deed 8667 dated 28.05.2015.

(3) Property measuring 65 Sq. Mtrs (700sq. ft.) situated at Dilshad Garden, Delhi 110095, as DDA built-up Freehold MIG Flat bearing No.94C, Second Floor, in pocket-A & B, Group IV in the

M/s SEHGAL INDUSTRIES prop. Sh. Satish Sehgal S/o Sh. Walaiti Ram & Guarantor:- Sunil Kumar S/o Walaiti Ram, Smt. Rinku W/o Satish Kumar

Kumar Sehgal.

Sh. Satish Kumar Sehgal

name of Sh. Rakesh Chand Bajaj vide conveyance deed 8666 dated 28.05.2015. Plot measuring 11 Marla being 11/1024 share comprising in Khewat Khata No-352/814, Khasra No. 127/51-4, situated at backside Sehgal Industries, Sultanpur Road, Village Sheikhupur Tehsil & District Kapurthala vide Sale Deed No. 162

dated 15.04.2002 Owned by Sh. Sunil

Mr. Hemant Kumar Jha (Authorised Officer), 1,87,39,967.40 Mobile No. and interest Symbolic 8826592244. thereon Possession 13(2) Notice Tel. No. 01822-501670 14.05.2018 Date: E mail:-05.02.2018 bo0258@pnb.co.in

Account No. 0258002100041412 (IFSC Code: PUNB0025800) Name of the Account: SARFEASI **EMD Collection** Account.

12.06.2019, 1. (RP) Rs. 22.44 Lac at 12.00 p.m. 1. (EMD) Rs. 2.25 Lac 1. (BIA) Rs. 10,000/-1.00 p.m. 12.06.2019, 2. (RP) Rs. 23.46 Lac at 12.00 p.m 2. (EMD) Rs. 2.35 Lac 2. (BIA) Rs. 10,000/-1.00 p.m. 12.06.2019, 3. (RP) Rs. 8.16 Lac 2) Plot measuring 11 1/2 Marla being 23/2048 share comprising in Khewat Khata No. 352/814, Khasra No. 127/51-4, situated at backside at 12.00 p.m. 3. (EMD) Rs. 81,600/-Sehgal Industries, Sultanpur Road, Village Sheikhupur Tehsil & District Kapurthala vide Sale Deed No. 163 dated 15.04.2002 Owned by 3. (BIA) Rs. 10,000/-1.00 p.m. 3) Plot measuring 4 Marla being 4/1024 share comprising in Khewat Khata No. 359/834, Khasra No. 127/51-4 situated at adjoining 12.06.2019, 4. (RP) Rs. 10.20 Lac at 12.00 p.m. 4. (EMD) Rs. 1.02 Lac

4. (BIA) Rs. 10,000/-

4) Plot measuring 5 Marla being 5/1024 share comprising in Khewat Khata No. 380/864, Khasra No. 127/51-4 situated at Village Sheikhupur District Kapurthala vide Sale Deed No. 3715 dated 09.11.2010 Owned by Smt. Rinku w/o Sh. Satish Kumar.

BRIEF TERMS AND CONDITIONS OF E-AUCTION SALE: The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions:

Sehgal Industries, Sultanpur Road Village Sheikhupur District Kapurthala vide Sale Deed No. 3339 dated 14.11.06 Owned by Smt.

I. The properties are being sold on "AS IS WHERE IS BASIS", "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" ii. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule herein above have been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or

omission in this proclamation.

The secured asset will not be sold below the reserve price.

iv. The auction sale will be "online through e-auction" portal http://pnbindia.biz.

v. The bidders are also advised to go through the portal http://pnbindia.biz; pnbindia.in; tenders.gov.in for detailed terms and conditions for e-auction sale before submitting their bids and taking part in the e-auction sale proceedings & or Contact: Sh. Ramesh Chander Gosain (Chief Manager) Mobile No. 9463631797, Ph. 01822-501542, Circle Office Kapurthala.

vi. Bank will be free to bid for eligible cases.

vii. "Any other encumbrance is not in the knowledge of the bank". The Authorized Officer or the Bank shall not be responsible for any charge, lien, encumbrances, or any other dues to the Government or anyone else in respect of properties E-Auctioned. The Intending Bidder is advised to make their own independent inquiries regarding the encumbrances on the property including statutory liabilities, arrears of property tax, electricity dues etc."

The borrower and guarantors are hereby notified to pay the sum as mentioned above alongwith upto date interest and ancillary expenses before the date of e auction, failing which the

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT, 2002

property will be auctioned/ sold and balance dues, if any, will be recovered with interest and costs. Date: 23.05.2019

Authorised Officer

1.00 p.m.

(T) IDBI BANK CIN: L65190MH2004GOI148838

Date: 22.05.2019

SI

IDBI Bank Ltd.- NPA Management Group, 1st Floor, Videocon Tower, E-1, Jhandewalan Extension, New Delhi -110055

Ph.: 011-6608 3083, 011 6608 4878, 9823859899 Shri Karan A Chanana 36, Prakriti Marg, M.G. Road, New Delhi-110030 (Promoter/ Suspended Director/ Guarantor) Ms. Anita Daing R/o 806, New Rajendra Nagar, New Delhi-110060 (Promoter/ Suspended Director/ Guarantor) Shri. Rajesh Arora (Suspended Managing Director) C-2B/82 C Janakpuri, New Delhi 110058 Ms. Aparna Puri (Suspended Director) 19, Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi-110005

Notice for Publication of the names & photographs of Wilful Defaulter w.r.t. M/s Amira Pure Foods Private Limited (APFPL) Please refer to our Show Cause Notice dated 26.06.2018 (SCN) and as per RBI Master Circular on Wilful Defaulters

dated July 1, 2015, you have been declared as willful defaulter by our Bank and the same has been reported to RBI/CIC. Further, RBI has vide its circular dated September 29, 2016, has outlined that Bank as a penal measure

against the borrowers declared as Wilful Defaulters may publish names and photographs of the Wilful Defaulters in

the newspapers/ magazines. Despite repeated requests, reminders and regular follow up, you have failed to pay the amount as per Statutory notice dated December 06, 2017 under section 13(2) of the SARFAESI Act, 2002. As a result, Letter/ Notice Ref No: 146 to 149 dated 22.05.2019 was sent to you by registered post regarding Publication of your names & photographs as Wilful Defaulters. We, therefore, call upon you to pay the entire outstanding amount of Rs. 1,05,02,30,920.29/- as on 21.05.2019 together with interest accrued thereon within a period of 15 days, from the date of letter/notice dated 22.05.2019, failing which, IDBI Bank shall in public interest proceed to publish your name and photograph giving other details, in the newspaper / magazines. Please also take notice that IDBI Bank shall not be responsible for any consequential or resultant loss of reputation or damages, which may accrue to you as a result of such publication in newspapers/ magazines. Place: New Delhi Authorised Signatory,

Commercial Engineers & Body Builders Co Ltd. Regd. office: 84/105-A. G.T.Road, Kanpur Mahanagar, Kanpur-208 003, Uttar Pradesh, India CIN: L24231UP1979PL004837

ANNEXURE I

Extract of Audited / Unaudited Financial Results for the Quarter / Year Ended March 31st, 2019

Quarter

ended

Particulars

[See Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015] (₹ In lacs)

Qtr. ended

Preceding | Corresponding

Qtr. ended

31-03-19 31-12-18 31-03-18 31-03-19 31-03-18 No. Audited Audited Audited Un-Audited Audited **Total Income from Operations** 5146.62 6,303.67 3,786.66 21,655.87 10080.39 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or 10,552.50) (423.59)(1,191.26)(8,867.38) -3691.27 Extraordinary items#) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional 10,552.50) (423.59)(1,191.26)(8.867.38) -3691.27 and / or Extraordinary items#) Net Profit / (Loss) for the period after tax(after Exceptional 10,552.50 (423.59) (1,191.26) (8,867.38) -3691.27 and/or Extraordinary items#) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for (5.19)1.33 5.26 (1.20)5.32 the period (after tax) and Other Comprehensive Income (aftertax)] 5,494.30 5,494.30 **Equity Share Capital** 8,948.27 8,948.27 5,494.30 Reserves (excluding Revaluation (12,212.02)637.27 Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 10/each) (for continuing and discontinued operations) -12.96 (0.77)14.42 -6.71 Basic: (2.16)

Notes:

2. Diluted:

a) The above audited financial results for the guarter and year ended 31 March 2019. were reviewed by the Audit Committee at their meeting held on 22 May 2019 and approved by the Board of Directors at their meeting held on 22 May 2019, The statutory auditors of the Company have carried audit of the above financial results for the quarter and year ended 31 March 2019 and an unmodified opinion has been issued. The same have been filed with BSE Ltd, and National Stock Exchange of India Ltd and is also available on the Company's website at www.cebbco.com,

(0.77)

(2.16)

14.42

-6.71

12.96

- In accordance with the requirements 0f. Ind AS, revenue for the period from 1 April 2018 to March 2019 is net ofGoods and Service Tax (GST). However, revenue for the period from 1 April 2017 to 30 June 2017 is inclusive of excise duty and that for the period from 01 July 2017 to March 2018 is net of GST.
- The Company had been incurring cash losses affecting its ability to service its borrowings, creditors, other liabilities and similar obligations. The Strategic Debt Restructuring ("SDR") plan of the Company in compliance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") could not be completed within the time frame prescribed by RBI and loan given by the lenders to the Company was classified as Non-Performing Assets in the books (it. lenders, The lenders were in the process of identifying revival measures including debt restructuring and other structural changes. Pursuant to a Resolution Plan, the Company, the lenders, the erstwhile promoters and the incoming investor entered into an agreement on 1 December 2018. The Resolution Plan mainly includes partial waiver of the principal amount of loan and interest, issuance of 3.45,39,693 equity shares of Rs. 10 each to the Incoming Investor, transfer or pledged promoter shares to the incoming investor, grant / renewal of the credit ' Facilities subject to certain terms and conditions and issuance of non-convertible redeemable preference shares. The above plan received shareholders approval on 7 January 2019, Pursuant to this, gain of Rs. 12,457 4S Lakhs (including the waiver of interest recognised as finance cost till 31 December 2018) has been recorded under the head 'Exceptional Items' and Rs. 3,983.1 1 has been recognised in 'Other equity', The management believes that the above Resolution Plan together with continued customer support and ownership change will result in revival of operations of the Company Accordingly, the financial results have been prepared on going conccm basis.
- d) During the guarter ended 31 March 2019, the Company has undertaken review of certain activities and assets held for the same. The Company has identified certain assets having Written Down Value (WDV) of Rs 1,700.83 Lakhs as at 31 March 2019 and included them under 'Assets held for sale' at their estimated net realisabic value The loss of Rs. 1,603.98 Lakhs being difference between WDV and estimated realizable value has been recorded under the head 'Exceptional Items'.
- e) Pursuant to the Resolution Plan as mentioned in Note 3 above, the share capital ofthe Company has undergone a change which is explained below' Authorized Share Capital '- Increased from Rs, 7,705.00 Lakhs to Rs 18,005,00 Lakhs, the details are as under ~ 57,050,000 equity share capital of Rs 10 each amounting to Rs. 5,705 00 Lakhs has been increased to 92,050,000 equity share capital of Rs. 10 each amounting to Rs, 9,205.00 Lakhs. - 2,000,000 preference share ofRs, 100 each amounting to Rs. 2.000.00 Lakhs has been increased to 8,800,000 preference share capital Rs. 100 each amounting to Rs. 8,800.00 Lakhs Paid up capital: 1ncreased from Rs. 6,794.30 Lakhs to Rs. 16,996,49 Lakhs, detailed as under: Equity share capital has increased from 54,942,964 equity shares of Rs. 10 each amounting Rs. 5,494.30 Lakhs to 89,482,657 equity shares of Rs. 10 each amounting to Rs 8,948,27 Lakhs. . Issue of 6,748,229 Non Convertible Cumulative Redeemable Preference Share Capital ofRs 100 each amounting to Rs 6,748.23 Lakhs.- 2,000,000 Non Convertible Cumulative Reedcmable Preference Share Capital of Rs. 65 each amounting to Rs 1300.00 Lakhs (there is no change in same)
- The figures of the last quarter are the balancing figures between the audited figures in respect of full year and the unaudited published figures up to the third quarter ended 31 December of respective year.
- g) The Company's business activity falls within a single primary business segment viz. "Sheet metal fabrication and body building". The operating segment has been defined based on regular review by the Company's Chief Operating Decision Maker to assess the performance of, the Company and to make decision about allocation of resources
- Effective 1 April 2018, the Company adopted Ind AS 115 "Revenue from Contracts with Customers" using the cumulative effect method which is applied to contracts that were not completed as of 1 April 2018. Accordingly, the comparatives have not been retrospectively adjusted There is no material effect on adoption of Ind AS 115 on the audited financial results.
- Previous period/year figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with current period/year classification / disclosures

For and on Behalf of the Board

Pune 22-05-19 Abhishek Jaiswal Director DIN- 07936627